



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2010/पौष 16, 1931

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2010/PAUSA 16, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सं. 1/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 8(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 129-क की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में सं. सा.का.नि. 410(अ), दिनांक 17 जून, 2005 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 49/2005-सीमा-शुल्क (गै.टै.) में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में :-

- कॉलम 2 में क्रम संख्या 19 के सामने शब्द "वलसाद" के स्थान पर "वापी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- कॉलम 2 एवं 3 में क्रम संख्या 66 के सामने शब्द "वलसाद" के स्थान पर "वापी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 390/12/2005(बीएमबी) जेसी]

मोहन लाल, अवर सचिव (न्यायिक सेल)

टिप्पणी :-मूल अधिसूचना सं. 49/2005-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 जून, 2005 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. सं. 410(अ), दिनांक 17 जून, 2005 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् इसमें अधिसूचना सं. 63/2006-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 9 जून, 2006

द्वारा दिनांक 9 जून, 2006 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 356(अ), के तहत संशोधन किया गया था। इसमें अधिसूचना सं. 42/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 12 मई, 2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 12 मई, 2008 में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 371(अ), के तहत और संशोधन किया गया था। इसमें अधिसूचना सं. 42/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 21 अप्रैल, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 21 अप्रैल, 2009 में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 272(अ), के तहत और संशोधन किया गया था। तत्पश्चात् इसमें अधिसूचना सं. 53/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 19 मई, 2009 द्वारा दिनांक 19 मई, 2009 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 344(अ), के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

No. 1/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 B) of Section 129A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 49/2005-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 410(E), dated the 17th June, 2005, namely :-

In the said notification, in the Table :—

- (i) against serial number 19, in column (2) for the word “Valsad”, the word “Vapi” shall be substituted;
- (ii) against serial number 66, in columns (2) and (3), for the word, “Valsad”, the word “Vapi” shall be substituted.

[F.No. 390/12/2005(BMB)-JC]

MOHAN LAL, Under Secy. (Judicial Cell)

Note :—The principal notification No. 49/2005-Customs (N.T.), dated the 17th June, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 410(E), dated the 17th June, 2005 and was subsequently amended by Notification No. 63/2006-Customs (N.T.), dated the 9th June, 2006 vide number G.S.R. 356(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 9th June, 2006. It was subsequently amended by Notification No. 42/2008- Customs (N.T.), dated the 12th May, 2008 vide number G.S.R. 371(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 12th May, 2008. It was subsequently amended by Notification No. 42/2009-Customs (N.T.), dated the 21st April, 2009 vide number G.S.R. 272(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st April, 2009. It was subsequently amended by Notification No. 53/2009-Customs (N.T.), dated the 19th May, 2009 vide number G.S.R. 344(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 19th May, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सं. 1/2010-के.उ.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 9(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 35ख की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 24/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में कॉलम (3) में क्रम संख्या 22 के सामने शब्द “वलसाद” के लिए शब्द “वापी” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 390/12/2005(बीएमबी) जेसी]

मोहन लाल, अवर सचिव (न्यायिक सेल)

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. 24/2005-के.उ.शु. (गै.टै.), को सं. सा. का. नि. 304(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत भारत

के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और तदनुसार निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 380(अ), दिनांक 8 जून, 2005 के तहत अधिसूचना सं. 29/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 661(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के तहत अधिसूचना सं. 35/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 4/2007-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 101(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 9/2008-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (v) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 53(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 3/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (vi) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा. का. नि. 270(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 8/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 341(अ), दिनांक 19 मई, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 11/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

No. 1/2010-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 9(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 B) of Section 35B of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 24/2005-Central Excise (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 304(E), dated the 13th May, 2005, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 22, in column (3), for the word “Valsad”, the word “Vapi” shall respectively be substituted.

[F.No. 390/12/2005(BMB)-JC]

MOHAN LAL, Under Secy. (Judicial Cell)

Note :—The Principal notification No. 24/2005-Central Excise (N.T.) was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 304(E) dated the 13th May, 2005 and was subsequently amended by :—

- (i) Notification No. 29/2005- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 380(E), dated the 8th June, 2005,
- (ii) Notification No. 35/2005- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 661(E), dated the 14th November, 2005,
- (iii) Notification No. 4/2007- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 74(E), dated the 9th February, 2007,
- (iv) Notification No. 9/2008- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 101(E), dated the 21st February, 2008,
- (v) Notification No. 3/2009- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 53(E), dated the 28th January, 2009,
- (vi) Notification No. 8/2009- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 270 (E), dated the 21st April, 2009,
- (vii) Notification No. 11/2009- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 341 (E), dated the 19th May 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सं. 2/2010-के.उ.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 10(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 35-ख की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा. का. नि. 305(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 25/2005-के.उ.शु.(गै.टै.) में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में :—

- (i) कॉलम 2 में क्रम संख्या 19 के सामने शब्द “वलसाद” के स्थान पर “वापी” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) कॉलम 2 एवं 3 में क्रम संख्या 70 के सामने शब्द “वलसाद” के स्थान पर “वापी” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 390/12/2005(बीएमबी)-जेसी]

मोहन लाल, अवर सचिव, (न्यायिक सेल)

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. 25/2005-के.उ.शु. (गै.टै.), को सं. सा.का.नि. 305(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और तदनुसार निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 8 जून, 2005 के तहत अधिसूचना सं. 30/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2005 के तहत अधिसूचना सं. 36/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 9 जून, 2006 के तहत अधिसूचना सं. 14/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 779(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 41/2007-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (v) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 234(अ), दिनांक 28 मार्च, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 21/2008-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (vi) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 647(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 34/2008-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 52(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 2/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 269(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 9/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा,
- (ix) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 19 मई, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 12/2009-के.उ.शु. (गै.टै.) द्वारा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

No. 2/2010-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 10(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 B) of Section 35B of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 25/2005-Central Excise (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 305(E), dated the 13th May, 2005, namely :—

In the said notification, in the Table :—

- (i) against serial number 19, in column (2) for the word "Valsad", the word "Vapi" shall be substituted;
- (ii) against serial number 70, in columns (2) and (3), for the word, "Valsad", the word "Vapi" shall be substituted.

[F. No. 390/12/2005(BMB)-JC]

MOHAN LAL, Under Secy. (Judicial Cell)

Note :—The Principal notification No. 25/2005-Central Excise (N.T.) dated the 13th May, 2005 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 305(E) dated the 13th May, 2005 and was amended by following numbers :—

- (i) Notification No. 30/2005-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 381(E), dated the 8th June, 2005,
- (ii) Notification No. 36/2005-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 662(E), dated the 14th November, 2005,
- (iii) Notification No. 14/2005-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 358(E), dated the 9th June, 2006,
- (iv) Notification No. 41/2007-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 779(E), dated the 19th December, 2007,
- (v) Notification No. 21/2008-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 234(E), dated the 28th March, 2008,
- (vi) Notification No. 34/2008-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 647 (E), dated the 10th September, 2008,

- (vii) Notification No. 02/2009-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 52(E), dated the 28th January, 2009,
- (viii) Notification No. 09/2009-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 269(E), dated the 21st April, 2009,
- (ix) Notification No. 12/2009-Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 342(E), dated the 19th May, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2010

सं. 2/2010-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 11(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 129-क की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा. का. नि. 307(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 39/2005-सीमा-शुल्क (गै.टै.) में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में कॉलम (3) में क्रम संख्या 15 के सामने शब्द "वलसाद" के स्थान पर "वापी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 390/12/2005(बीएमबी)-जेसी]

मोहन लाल, अवर सचिव (न्यायिक सेल)

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना सं. 39/2005-के.उ.शु. (गै.टै.), को सं. सा.का.नि. 307(अ), दिनांक 13 मई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :—

- (i) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 382(अ), दिनांक 8 जून, 2005 के तहत अधिसूचना सं. 46/2005-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (ii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के तहत अधिसूचना सं. 44/2006-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (iii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 75(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 10/2007-सीमा-शुल्क(गै.टै.) द्वारा,
- (iv) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 621(अ), दिनांक

24 सितम्बर, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 98/2007-सीमा-शुल्क (गै.टै. द्वारा,

- (v) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 644(अ), दिनांक 5 अक्टूबर, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 102/2007-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (vi) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 695(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 2007 के तहत अधिसूचना सं. 111/2007-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (vii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 4/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (viii) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 21 फरवरी, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 9/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (ix) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 523(अ), दिनांक 15 जुलाई, 2008 के तहत अधिसूचना सं. 87/2008-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (x) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 271(अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 41/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा,
- (xi) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सं. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 19 मई, 2009 के तहत अधिसूचना सं. 52/2009-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2010

No. 2/2010-Customs (N.T.)

G.S.R. 11(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1 B) of Section 129A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 39/2005-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.307(E), dated the 13th May, 2005, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 15, in column (3), for the word "Valsad", the word "Vapi" shall be substituted.

[F.No.390/12/2005(BMB)-JC]

MOHAN LAL, Under Secy. (Judicial Cell)

Note :—The principal notification No.39/2005-Customs (N.T.) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 307(E) dated the 13th May, 2005 and was amended by :—

- (i) Notification No. 46/2005-Customs, (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 382(E), dated the 8th June, 2005.
- (ii) Notification No. 44/2006-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.210(E), dated the 7th April, 2006.
- (iii) Notification No. 10/2007-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.75(E), dated the 9th February, 2007.
- (iv) Notification No. 98/2007-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.621(E), dated the 24th September, 2007.
- (v) Notification No. 102/2007-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 644(E), dated the 5th October, 2007.
- (vi) Notification No. 111/2007-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 695 (E), dated the 7th November, 2007.
- (vii) Notification No. 4/2008-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.30 (E), dated the 15th January, 2008.
- (viii) Notification No. 9/2008-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.100(E), dated the 21st February, 2008.
- (ix) Notification No. 87/2008-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 523(E), dated the 15th July, 2008.
- (x) Notification No. 41/2009-Customs (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 271 (E), dated the 21st April, 2009.
- (xi) Notification No. 52/2009- Central Excise (N.T.), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R.343 (E), dated the 19th May 2009.